



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 श्रावण 1936 (श0)  
(सं0 पटना 677) पटना, मंगलवार, 19 अगस्त 2014

---

#### निर्वाचन विभाग

##### अधिसूचना

13 अगस्त 2014

सं0 बी1-3-121/2014-78—बिहार विधान-सभा उप निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 3-नरकटियांगंज, 37-राजनगर(अ.जा.), 87-जाले, 118-छपरा, 123-हाजीपुर, 137-मोहिउद्दीननगर, 151-परबत्ता, 156-भागलपुर, 161-बांका एवं 204-मोहनिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या- 576/एग्जिट/2014/एस.डी.आर(उप-निर्वाचन) दिनांक 5 अगस्त, 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

हुसैन यूसुफ रिजवी,

अपर सचिव।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 दिनांक 5 अगस्त, 2014

सं०: 576/एग्जिट/2014/एस.डी.आर(उप-निर्वाचन)—यतः बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 19 जुलाई, 2014 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/35/2014 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा(2) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा 21.08.2014 (वृहस्पतिवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/35/2014, दिनांक 19 जुलाई, 2014 के द्वारा घोषित बिहार की 3-नरकटियागंज, 37-राजनगर(अ.जा.), 87-जाले, 118-छपरा, 123-हाजीपुर, 137-मोहिउद्दीननगर, 151-परबत्ता, 156-भागलपुर, 161-बोंका, 204-मोहनिया (अ.जा.) विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक की 2-चिक्कोड़ी-सदालगा, 93-बेल्लारी (अ.ज.जा.) और 115-शिकारीपूरा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों मध्य प्रदेश की 92-विजयराघवगढ़, 94-बहोरीबंद और 166-आगर (अ.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पंजाब की 94-तलबन्डी साबो और 115-पटियाला विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (2) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

आशीष चक्रवर्ती,

सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001 Dated: 5<sup>th</sup> August, 2014*

No.576/EXIT/2014/SDR(BYE-LA)—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the Legislative Assemblies of Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh & Punjab have been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/35/2014 dated 19<sup>th</sup> July, 2014;

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951 there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regards;

3. No, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951 the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section

(2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 6.30 P.M. on 21-08-2014 (Thursday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No.ECI/PN/35/2014, dated 19<sup>th</sup> July, 2014 from **3-Narkatiaganj, 37-Rajnagar(SC), 87-Jale, 118-Chapra, 123-Hajipur, 137-Mohiuddinnagar, 151-Parbatta, 156-Bhagalpur, 161-Banka and 204-Mohania(SC) Assembly Constituencies in Bihar, 2-Chikkodi-Sadalga, 93-Bellary(ST) and 115-Shikaripura in Karnataka, 92-Vijayraghavarh, 94-Bahoriband and 166-Agar(SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and 94-Talwandi Sabo & 115-Patiala Assembly Constituencies in Punjab**, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By Order,  
ASHISH CHAKRABORTY,  
Secretary.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 677-571+300-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>